



# NATIONAL TESTING AGENCY

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)  
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

## सार्वजनिक सूचना

2 मार्च, 2021

विषय : जेईई (मुख्य) मार्च, अप्रैल एवं मई-2021 (सत्र-2, 3 & 4) हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित।

16 दिसंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना की निरंतरता को जारी रखते हुए एनटीए अब अभ्यर्थियों को जेईई (मुख्य)-2021 के (शेष) सत्रों से आवेदन करने/वापस लेने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है।

एक बार पुनः यह सूचित किया जा रहा है कि मार्च (सत्र-2) और अप्रैल (सत्र-3) सिर्फ पत्र-1 (B.E./B.Tech.) के लिए आयोजित किया जाएगा

पेपर 2A (B.Arch) और 2B (B. Planning) के लिए फिर से उपस्थित होने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास मई सत्र (सत्र-4) आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने का अगला अवसर होगा।

### उपलब्ध सत्रों का विवरण इस प्रकार है:

जेईई (मेन) -2021	परीक्षा की तिथियां	आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना	ऑनलाइन शुल्क- भुगतान की अंतिम तिथि	ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करना	परिणाम की घोषणा
सत्र-2 (मार्च-2021) (B.E./B.Tech.) (पत्र -1)	15, 16, 17, और 18 मार्च 2021	2 मार्च 2021 से 6 मार्च 2021 (शाम 6:00 बजे तक)	6 मार्च 2021 (रात्रि 11.50 बजे तक)	बाद में सूचित किया जाएगा	
सत्र-3 (अप्रैल-2021) (B.E./B.Tech.) (पत्र -1)	27, 28, 29 & 30 अप्रैल 2021	एनटीए की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित किया जाएगा			
सत्र-4 (मई-2021) (B.E./B.Tech. & B.Arch./B.प्लानिंग) (पत्र-1, पत्र -2 ए & पत्र-2बी)	24, 25, 26 27, & 28 मई 2021	एनटीए की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित किया जाएगा			

निर्देश : एक अभ्यर्थी के पास एक या एक से अधिक सत्र (मार्च/अप्रैल/मई 2021) के लिए एक साथ आवेदन करने और तदनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उम्मीदवार केवल एक सत्र के लिए

आवेदन करना चाहता है, तो उसे वर्तमान आवेदन अवधि के दौरान केवल उस सत्र के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और शेष अप्रैल/मई सत्रों के लिए पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।


**जिन उम्मीदवारों ने मार्च/अप्रैल/मई सत्रों के लिए पहले आवेदन किया है, वे 2 से 6 मार्च 2021 की अवधि के दौरान, अपने विवरण (सत्र, श्रेणी, विषय आदि) को संशोधित कर सकते हैं।**

समय के सीमित होने के कारण 06 मार्च, 2021 (शाम 6:00 बजे) को आवेदन-अवसर खत्म हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को सुधार विंडो के माध्यम से सुधार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को बेहद सावधानी बरतनी होगी।

एक अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन करते हुए मार्च/अप्रैल/मई सत्रों से अपनी भागीदारी भी, वापस ले सकता है।

लॉकडाउन के कारण फरवरी सत्र के लिए परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले बहरीन के अभ्यर्थियों के लिए अलग से ई-मेल से सूचना दी जा रही है।

अभ्यर्थियों को इससे संबंधित किसी भी तरह के नवीनतम अद्यतन (अपडेट) के लिए एन टी ए ([www.nta.ac.in](http://www.nta.ac.in)) और ([jeemain.nta.nic.in](http://jeemain.nta.nic.in)) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी जाती है।

  
(डॉ साधना पाराशर)  
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)